

EF306

Roll No. : .....

2018

## OPTICAL FIBER COMMUNICATION

निर्धारित समय : तीन घंटे]

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70

[Maximum Marks : 70

**नोट :** (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

**Note :** Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) स्वतः उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए।

Define the spontaneous emission.

- (ii) समकारक की महत्ता को समझाइए।

Explain importance of equalizer.

- (iii) अभिग्राही में विभिन्न रख स्रोतों के नाम बताइए।

Name different noise sources in receivers.

- (iv) अभिग्राही सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए।

Define the receiver sensitivity.

- (v) OFDM एवं WDM की तुलना कीजिए।

Compare OFDM and WDM.

(2×5)

2. (i) प्रकाश तंतु संचार हेतु कला सम्बन्ध व्यवस्था की खण्ड आरेख सहित व्याख्या कीजिए।

Explain the coherent system for optical fiber communication with block diagram.

(ii) अंकीय सूचना को विभिन्न फोर्मेट में कोड क्यों किया जाता है ? डाटा क्रम 1001010011 को विभिन्न फोर्मेट में कोड कीजिए।

Why do we encode digital information in various formats ? Encode data sequence 1001010011 in various formats. (6x2)

3. (i) अप्रत्यक्ष प्रकाशीय मॉड्युलन को विस्तार से समझाइए। प्रत्यक्ष प्रकाशीय मॉड्युलन से इसकी तुलना कीजिए।

Explain in detail the indirect optical modulation. Also compare it with direct optical modulation.

(ii) एल.ई.डी. की सीमाओं की विवेचना कीजिए।

Discuss the limitations of LED. (6x2)

4. प्रकाशीय तंत्र डिज़ाइन से सम्बन्धित निम्न पदों को समझाइए :

Explain the following terms with respect to optical system design :

(a) पॉवर बजेटिंग

Power Budgeting

(b) सिस्टम मार्जिन

System Margin

(c) फाइबर अनुक्रिया समय

Fiber response time

(4x3)

5. (i) पुनर्योजी पुनरावर्तक का क्या प्रयोग है ? समझाइए।

What is the use of Regenerative Repeaters ? Explain.

(ii) फोटोट्रांजिस्टर को काम लेते हुए अभिग्राही परिपथ को समझाइए।

Explain the receiver circuit using photo transistor. (6x2)

6. (i) सिम्प्लेक्स एवं डुप्लेक्स प्रकाशीय मल्टीप्लेक्सरों के मूल कार्यचालन को समझाइए।

Explain basic operation of simplex and duplex optical multiplexer.

(ii) WDM के सिद्धांत को समझाइए।

Explain the principle of WDM. (6x2)

7. (i) प्रकाशीय तंतु प्रवर्धकों के उपयोग लिखिए।

Write down the applications of fiber optical amplifier.

- (ii) कोहरेन्ट एवं नॉन-कोहरेन्ट ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन में विभेद कीजिए।

Differentiate between coherent and non-coherent optical communication.

(6x2)

8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

Write short notes on any **two** of the following :

- (i) प्रिज्म तथा विवर्तन ग्रेटिंग

Prism and diffraction grating.

- (ii) प्रकाशीय प्रेषित हेतु बायस एवं नियंत्रक परिपथ।

Bias and control circuit for optical transmitter.

- (iii) RS 232 पोर्ट का उपयोग कर कम्प्यूटर संचार

Computer communication using RS 232 port.

(6x2)

**EF306**

**(4 of 4)**

**1234**